

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

**श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध शाखा का आकस्मिक निरीक्षण कर सम्बन्धित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश ।**

आज दिनांक 14-02-2021 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा सर्वप्रथम पुलिस लाइन पहुँचकर रिफ्रूट आरक्षियों के क्लास रूम, मनोरंजन गृह, यातायात कार्यालय की साफ-सफाई एवं भवन का निरीक्षण किया तत्पश्चात् महोदय द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित अपराध शाखा, चुनाव सेल, डीसीआरबी0 व एएचटीयू परिसर की साफ-सफाई एवं फाइलों के रख-रखाव इत्यादि का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

**जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 15 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।**

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.02.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 15 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया | जिसके अंतर्गत आज प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड सिद्धार्थ नगर तथा जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

**एण्टी रोमियो टीम का विवरण-**

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

आज दिनांक 14.02.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री मायाराम वर्मा द्वारा थाना जोगिया उदयपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया । सर्वप्रथम महोदय के थाना जोगिया उदयपुर पहुंचने पर सलामी दी गयी । इसके पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के रजिस्ट्रों का रख रखाव, शस्त्रों की साफ सफाई, मेस, बैरिक व थाना प्रांगण का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक आदेश-निर्देश दिये गये ।

**04**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन एवं श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14-02-2021 को श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक थाना चिल्हिया मय फोर्स दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ दंगा रिहर्सल ड्रिल किया गया।

**05**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 14-02-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 267 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 88 वाहनों का चालान कर ₹ 78100 /-शमन शुल्क वसूल किया गया।

**06**

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर\***

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन व श्री जयप्रकाश दूबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आगामी ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 14.02.2021 को थाना मोहाना पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत सा0 खलीलपुर टोला गडिया के 11व्यक्ति, रेहरवा के 06 व्यक्ति, गोपालपुर के 07 व्यक्ति, जगदीशपुर के 08 व्यक्ति, युसुफपुर के 07 व्यक्ति, पड़री के 06 व्यक्ति, तथा सा0 रामगढ़ के 02 व्यक्ति कुल 47 व्यक्तियों की चलानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय भेजा गया।